

## Degree (Part-II) Examination, 2025

( Subsidiary/Vocational )

## MATHEMATICS

Paper Code : For Sc. : 120402  
For Voc. : 140402  
For Arts.. : 221502

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100]

**Note :** Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The questions are of equal value. Answer five questions in all. Question no. 1 is compulsory. Besides this, attempt at least one question from each Group.

परीक्षार्थी यथासम्भव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सभी प्रश्नों के मान समान हैं। कुल पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समूह से कम-से-कम एक प्रश्न को हल कीजिए।

---

120402-140402-  
221502/3490

( 1 )

Turn Over

1. Choose the correct option of the following: [10x2=20]

निम्नलिखित के सही विकल्प का चयन कीजिए :

(i) If  $y = \sqrt{\sin x}$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is :

(a)  $\frac{1}{2} \sin x \cdot \cos x$

(b)  $\sqrt{\cos x}$

(c)  $\sqrt{\sin x} \cdot \cos x$

(d) None of these

यदि  $y = \sqrt{\sin x}$ , तब  $\frac{dy}{dx}$  है :

(a)  $\frac{1}{2} \sin x \cdot \cos x$

(b)  $\sqrt{\cos x}$

(c)  $\sqrt{\sin x} \cdot \cos x$

(d) इनमें से कोई नहीं

(ii) If  $y = x \sin(x+y)$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is

120402-140402-

( 2 )

221502/3490

(a)  $\frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$

(b)  $\frac{\sin a}{\sin^2(a+y)}$

(c)  $\frac{\sin(a+y)}{\cos a}$

(d) None of the above

यदि  $y = x \sin(a+y)$ , तब  $\frac{dy}{dx}$  है :

(a)  $\frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$

(b)  $\frac{\sin a}{\sin^2(a+y)}$

(c)  $\frac{\sin(a+y)}{\cos a}$

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(iii) If  $y = \sin(\log x)$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is :

(a)  $\frac{\log x}{\sin x}$

120402-140402-

( 3 )

221502/3490

Turn Over



(b)  $\frac{1}{x} \cdot \cos(\log x)$

(c)  $\cos(\log x)$

(d) None of these

यदि  $y = \sin(\log x)$ , तब  $\frac{dy}{dx}$  है :

(a)  $\frac{\log x}{\sin x}$

(b)  $\frac{1}{x} \cdot \cos(\log x)$

(c)  $\cos(\log x)$

(d) इनमें से कोई नहीं

(iv) If  $x^x = y^y$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is :

(a)  $-\frac{y}{x}$

(b)  $-\frac{x}{y}$

120402-140402-  
221502/3490

( 4 )



(c)  $\frac{1 + \log x}{1 + \log y}$

(d) ~~None of the above~~

यदि  $x^x = y^y$ , तब  $\frac{dy}{dx}$  है :

(a)  $-\frac{y}{x}$

(b)  $-\frac{x}{y}$

(c)  $\frac{1 + \log x}{1 + \log y}$

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(v)  $\int \log x \, dx$  is equal to :

(a)  ~~$x \log x - x + c$~~

(b)  $\frac{1}{x} + c$

(c)  $x \log x + c$

(d) None of the above

$\int \log x \, dx$  के समान है :

(a)  $x \log x - x + c$

(b)  $\frac{1}{x} + c$

(c)  $x \log x + c$

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(vi) If  $x \frac{dy}{dx} + 3y = x$ , then solution is :

(a)  $x^3 y = \frac{x^4}{4} + c$

(b)  $x^2 y^2 = c$

(c)  $xy + y^2 + c = 0$

(d) None of the above

यदि  $x \frac{dy}{dx} + 3y = x$ , तो इसका हल है :

(a)  $x^3 y = \frac{x^4}{4} + c$

(b)  $x^2 y^2 = c$

120402-140402-  
221502/3490 ( 6 )



(c)  $xy + y^2 + c = 0$

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(vii) If  $\frac{dy}{dx} + y \log x = x^2$ , then solution is :

(a)  $y = \frac{x^3}{4} + c$

(b)  $y = \frac{x^4}{4} + c$

(c)  $y = x + c$

(d) None of the above

यदि  $\frac{dy}{dx} + y \log x = x^2$ , तब इसका हल है :

(a)  $y = \frac{x^3}{4} + c$

(b)  $y = \frac{x^4}{4} + c$

(c)  $y = x + c$

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

120402-140402-

( 7 )

221502/3490

Turn Over



Scanned with OKEN Scanner

(viii) The equation of line of action of the resultant of coplanar forces is :

(a)  $Yx - Xy = 0$

(b)  $Yx - Xy + G = 0$

(c)  $Xx - Yy + G = 0$

(d) None of the above

समतलीय बलों के परिणामी की क्रिया-रेखा का समीकरण है :

(a)  $Yx - Xy = 0$

(b)  $Yx - Xy + G = 0$

(c)  $Xx - Yy + G = 0$

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(ix) Change of velocity with respect to time is called :

(a) Force

(b) Displacement

(c) Acceleration

(d) None of the above

समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन कहलाता है :

- (a) बल
- (b) विस्थापन
- (c) त्वरण
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(x) The differential equation of S.H.M. is :

(a)  $\frac{d^2x}{dt^2} = -\mu x$  (b)  $\frac{dx}{dt} = -\mu x$

(c)  $\frac{d^2x}{dt^2} = \mu x$  (d) None of these

सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है :

(a)  $\frac{d^2x}{dt^2} = -\mu x$  (b)  $\frac{dx}{dt} = -\mu x$

(c)  $\frac{d^2x}{dt^2} = \mu x$  (d) इनमें से कोई नहीं

Group-A / (समूह-अ) [20 marks each]

2. (a) Solve :  $(x+1) \cdot \frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y}$

हल कीजिए :  $(x+1) \cdot \frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y}$

120402-140402-

( 9 )

Turn Over

221502/3490

(b) Solve :  $x \frac{dy}{dx} + 3y = x$

हल कीजिए :  $x \frac{dy}{dx} + 3y = x$

3. (a) If  $y = \sin(ax + b)$ , then find  $y_n$ .

यदि  $y = \sin(ax + b)$ , तब  $y_n$  का मान प्राप्त कीजिए।

(b) State and prove Leibnitz theorem on successive differentiation.

लाइबनिज के उत्तरोत्तर अवकलन की प्रमेय का कथन दीजिए और सिद्ध कीजिए।

4. (a) Show that :  $\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \log 2$

दिखाइए कि :  $\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \log 2$

(b) Evaluate :  $\int \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

मूल्यांकन कीजिए :  $\int \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

5. (a) Solve :  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$

120402-140402-  
221502/3490

( 10 )



हल कीजिए :  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$

(b) Solve :  $\frac{dy}{dx} (1+x^2) \cdot \tan^{-1} x + y = 0$

हल कीजिए :  $\frac{dy}{dx} (1+x^2) \cdot \tan^{-1} x + y = 0$

**Group-B/ (समूह-ब) [20 marks each]**

6. (a) Prove that :  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$

सिद्ध कीजिए :  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$

(b) Write down the necessary and sufficient condition that the three non-parallel, non-zero vectors  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  be coplanar.

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  कोई तीन गैर-समानांतर, गैर-शून्य सदिश हैं।

इनके समतलीय होने की आवश्यक एवं अनिवार्य शर्त लिखिए।

7. If  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  are three non-coplanar vectors, then prove that  $\vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}, \vec{a} \times \vec{b}$  are also non-coplanar.

यदि  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  कोई तीन गैर-समतलीय सदिश हैं, तब सिद्ध कीजिए

कि  $\vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}, \vec{a} \times \vec{b}$  भी गैर-समतलीय होंगे।

Group-C/ (समूह-स) [20 marks each]

8. (a) Obtain necessary and sufficient conditions for the equilibrium of a system of coplanar forces acting on a rigid body.

एक दृढ़पिण्ड पर कार्य करने वाले समतलीय बलों की प्रणाली के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें प्राप्त कीजिए।

(b) Find the equation of the line of action of the resultant of coplanar system of forces acting on a rigid body.

किसी दृढ़पिण्ड पर कार्य करने वाली समतलीय बल प्रणाली के परिणामी की क्रिया-रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए।

9. (a) Find the radial acceleration of a particle  $P(r, \theta)$  describing a smooth curve.

किसी कण  $P(r, \theta)$  जो एक निष्क्रेण वक्र को वर्णित करता है, का त्रिज्य त्वरण ज्ञात कीजिए।

(b) Find the radial velocity of a particle  $P(r, \theta)$  describing a smooth curve.

किसी कण  $P(r, \theta)$  जो एक निष्क्रेण वक्र को वर्णित करता है, का त्रिज्य वेग ज्ञात कीजिए।

---

THE END

120402-140402-

( 12 )

221502/3490